



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 वैशाख 1937 (श०)  
(सं० पटना 539) पटना, बुधवार, 6 मई 2015

---

विधि विभाग

-----

अधिसूचना

6 मई 2015

सं० एल०जी०-1-9/2015/ 66 लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

**बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2008-2009)**

अधिनियम, 2015

(बिहार अधिनियम 7, 2015)

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का, वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2005, 2006, 2008 एवं 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम । - यह अधिनियम बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2008-2009) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2005, 2006, 2008 एवं 2009 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 545399, 2944787975, 10414216, एवं 89106317 ( 3774580 + 85331737 ) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर **3044853907** (तीन अरब चार करोड़ अड़तालिस लाख तिरेपन हजार नौ सौ सात) रुपये हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2005, 2006, 2008 एवं 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी ।

3. विनियोग । - इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2005, 2006, 2008 एवं 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित्त विनियुक्त किया गया समझा जायेगा ।

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2004-2005				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	19	वन एवं पर्यावरण विभाग	पूँजी	<b>545399</b>	—	<b>545399</b>
			कुल	<b>545399</b>		<b>545399</b>

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2005-2006				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	39	आपदा प्रबन्धन विभाग	राजस्व	<b>2944787975</b>	—	<b>2944787975</b>
			कुल	<b>2944787975</b>		<b>2944787975</b>

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2007-2008				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	17	वाणिज्य कर विभाग	राजस्व	<b>10414216</b>	—	<b>10414216</b>
			कुल	<b>10414216</b>		<b>10414216</b>

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2008-2009				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	17	वाणिज्य कर विभाग	राजस्व	<b>3774580</b>	—	<b>3774580</b>
			कुल	<b>3774580</b>		<b>3774580</b>

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2008-2009				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	28	बिहार का उच्च न्यायालय	राजस्व	—	<b>85331737</b>	<b>85331737</b>
			कुल	—	<b>85331737</b>	<b>85331737</b>

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मनोज कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 539-571+400-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>